



TGL/2020-21/SEC-88

Date: 05.11.2020

To,
The Manager
Department of Corporate Services-Listing
Bombay Stock Exchange Limited
25th floor, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Sub: Newspaper publication of the Notice of 49th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means
Ref: Triveni Glass Limited (Scrip Code 502281)

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published by the Company with regard to notice of 49th Annual General Meeting of the Company through video conferencing / through other audio-visual means, which is scheduled to be held on Friday, November 27, 2020 at 12.00 p.m. The same is published in two Newspapers i.e The Financial Express & AAJ on November 5, 2020 and are attached herewith.

Kindly take the above information on record.

For Triveni Glass Limited

Astha Mohan

Astha Mohan
Company Secretary

Regd. Off. :

1, Kanpur Road, Allahabad - 211 001, India
Phone : +91-532-2407325
Fax : +91-532-2407450
E-mail : akd@triveniglassltd.com
Website : www.triveniglassltd.com
CIN No. : L26101UP1971PLC003491

IF IT'S GLASS IT'S US

JMG CORPORATION LIMITED
 Regd. Office: 574, 2nd Floor, Main Road, Chirag Delhi, New Delhi-110017
 E-mail: info@jmg-corp.in
 Website: www.jmg-corp.in
 Phone No. (011)-41834411, 41834111
 Fax: 011-41834112
 CIN: L31104DL1989PLC362504
NOTICE OF BOARD MEETING
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of 'JMG CORPORATION LIMITED' is scheduled to be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at J. S. Gurus Park Extension, New Delhi-110016, at 12:00 P.M., inter-alia, to consider and approve un-audited financial results for the second quarter ended on 30th September, 2020.
 The said notice may be accessed on Company's website: www.jmg-corp.in and may also be accessed on the Stock Exchange website: www.bseindia.com.
 For JMG CORPORATION LIMITED
 Sd/-
 Nisha Kumari
 Place: New Delhi (Company Secretary)
 Date: 04.11.2020 M. No. ACS 44218

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.
 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/A, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi-110025
NOTICE
 NOTICE is hereby given that pursuant to clause 29 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th day of November, 2020 at the Registered Office of the Company, inter-alia, to approve and take on record the un-audited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.
 By order of the Board
 For National General Industries Ltd.
 Sd/-
 Vandana Gupta
 Place: New Delhi
 Date: 04.11.2020
 Company Secretary

LOKESH MACHINES LIMITED
 Regd. Office: B-29, EEIE, Stage - II, Balanagar, Hyderabad - 500 037
 CIN: L29219TG1983PLC004319, Website: www.lokeshmachines.com
 E-mail: cosecye@lokeshmachines.com, Tel: +91-40-23079310
NOTICE
 NOTICE is hereby given that Pursuant to Reg. 29(1)(a), Reg 33 and 47(1)(a) of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020 at the Registered office of the Company to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half-year ended on 30th September, 2020.
 For LOKESH MACHINES LIMITED
 Sd/-
 Matru Prasad Mishra
 Place: Hyderabad
 Date: 04th November, 2020
 Company Secretary

ROSELABS FINANCE LIMITED
 CIN: L70100MH1995PLC318333
 Regd. Office: 412, Floor-4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001 Tel: 91.22.23024400 Fax: +91.22.23024550
 Website: www.roselabsfinance.com E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ENDED 30-SEPTEMBER-2020

Sr. No.	Particulars	₹ in Lakhs		
		For the quarter ended	For the half year ended	For the quarter ended
		30-Sep-20 (Unaudited)	30-Sep-20 (Unaudited)	30-Sep-19 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.84)	(5.24)	(2.81)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(279.25)	(280.65)	(2.81)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(279.25)	(280.65)	(2.81)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(279.25)	(280.65)	(2.81)
6	Equity share capital (Face Value of ₹ 10 each)	1000.00	1000.00	1000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(1,331.05)	-	-
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) (not annualised) Basic and Diluted	(2.79)	(2.81)	(0.03)

NOTE
 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e., www.bseindia.com and of the Company i.e., www.roselabsfinance.com.
 2 By Order dated 23-December-19, the Adjudicating Officer of SEBI has confirmed their Show-Cause Notice dated 15-December-09 imposing penalty of ₹ 253.73 Lakhs for alleged violation of certain provisions of SEBI Regulations during the financial year 2003-04 when the Company was under the control of earlier promoters. The Company has filed an appeal before the Securities Appellate Tribunal challenging the Order which has now been adjudged on 25-November-20. The Recovery officer of SEBI issued a notice of demand to recover the penalty of ₹. 253.73 lakhs along with the interest of ₹. 21.68 lakhs on 08-September-20.
 In light of the above, the Company has made provision of ₹. 275.41 lakhs during the current quarter and the same has been disclosed as Exceptional Item in the above statement.
 For and on behalf of the Board
 For Roselabs Finance Limited
 Sd/-
 Nishesh Rawat
 Managing Director
 (DIN : 06705140)
 Place : Mumbai
 Date : 3-November-2020

CORRIGENDUM
 In the Board Meeting Notice of Jindal Photo Limited which was published on 04.11.2020 in this newspaper where Board Meeting date should read as "11th November, 2020" instead of "11th October, 2020".
 Inconvenience caused is regretted.

JITF INFRALOGISTICS LIMITED
 REGD. OFF : A-1, UPSIDC INDL AREA, NANDGAON ROAD, KOSI KALAN, DISTT. MATHURA - 281 403
 CIN : L60231UP2008PLC069245
NOTICE
 NOTICE pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020 at Jindal ITF Centre, 28th Shivaji Marg, New Delhi - 110015. Inter-alia to consider and approve the Un-audited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the company for the 2nd quarter / half year ended 30th Sept, 2020.
 Pursuant to the Code of Conduct for Prevention of Insider Trading under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, Trading Window shall remain closed up to 48 hours from the disclosure of above Financial Results.
 This Notice is also available on the website of the Company www.jindalinfra.com and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed namely, at www.bseindia.com and www.nseindia.com.
 ForJITFINFRALOGISTICS LIMITED
 Sd/-
 ALOK KUMAR
 Place: New Delhi Company Secretary
 Date: 04th November, 2020 ACS: 19819

HARRISONS MALAYALAM LIMITED
 Regd. Office: 24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin - 682 003
 CIN: L01119KL1967PLC002947
 e-mail: hmlcorp@harrisonsmalayalam.com
 Website: www.harrisonsmalayalam.com
NOTICE
 Notice is hereby given in compliance with Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020, to approve, inter alia, the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020.
 This information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the Company's equity shares are listed and is also available on the website of the Company www.harrisonsmalayalam.com.
 By order of the Board of Directors
 For HARRISONS MALAYALAM LIMITED
 Sd/-
 Binu Thomas
 04.11.2020 Company Secretary

PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED
 Regd. Off: 314, 3rd Floor, Opposite Plot No. 39, R. G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085
 CIN: L6990DL1982PLC296291, PH NO- 011-42044711, E-Mail: info@pvtinvestment.in, Website: www.pvtinvestment.in
NOTICE
 Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 47(1)(a) read with regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of M/s Pankaj Piyush Trade & Investment Limited is scheduled to be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the Company to consider and approve the Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter & half year ended 30th September, 2020 and any other matter which the Company to consider and Further details will be available on the website of the Company i.e., www.pvtinvestment.in, and also on the website of stock exchange at www.bseindia.com.
 For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited
 Sd/-
 Kanika Arora
 Place: New Delhi
 Date: 04.11.2020
 Company Secretary

CREST VENTURES LIMITED
 Registered Office: 111, Maker Chambers IV, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021
 CIN: L99999MH1982PLC102697
 Website: www.crest.co.in Email: secretarial@crest.co.in
 Tel: 022 - 4334 7000 Fax: 022 - 4334 7002
NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11th November, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.
 The notice is available on the website of the Company at www.crest.co.in and also on the website of the Stock Exchanges viz., Bombay Stock Exchange (BSE) at www.bseindia.com and on National Stock Exchange (NSE) at www.nseindia.com.
 For Crest Ventures Limited
 Sd/-
 Namita Bapna
 Place: Mumbai
 Date: 4th November, 2020
 Company Secretary

INDIA FINSEC LIMITED
 Regd. Off: D-16, First Floor, Above Icdi Park, Prashant Vihar, Sector-14, Rohtak, Delhi-110085
 CIN: L65923DL1994PLC080827, PH NO- 011-47096097, E-Mail: indiafinsec@gmail.com, Website: www.indiafinsec.com
NOTICE
 Pursuant to Regulation 47(1)(a) & 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of India Finsec Limited is scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 4.00 p.m. at the registered office of the Company to consider and approve the Un-Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the quarter/half year ended September 30, 2020 along with any other matter with the permission of Chairman.
 For India Finsec Limited
 Sd/-
 Vijay Kumar Dwivedi
 Place: Delhi
 Date: 04.11.2020 M.No. A36168
 Company Secretary

SHALIM WIRE INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: 25, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 700 013
 Tel: 91-33-2234080/0910, Fax: 91-33-2211 6880
 email ID : kejrival@shalimwires.com
 website : www.shalimwires.com
NOTICE
 Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th day of November, 2020 to consider and approve, inter-alia, the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30th September, 2020.
 The information is also available on the Company's website at www.shalimwires.com and also on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.
 For Shalim Wires Industries Ltd.
 Sd/-
 S.K. Kejrival
 Date: 4th November, 2020 Company Secretary

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
 CIN - L29199DL1985PLC015796
 Regd. Off: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
 Phone No. 011-43502330, 0120-4842400, Fax no. 0120-2462675
 E-Mail id: compsect@udttd.com, Website: www.udttd.com
NOTICE
 Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 12:15 PM to inter-alia -
 • To consider and the approve un-audited Financial Results of the Company for the 2nd quarter and half year ended 30th September, 2020 along with Limited Review Report of Statutory Auditors thereon
 This information is also available on the website of the company viz. www.udttd.com and the website of the Stock Exchange where the Company's shares are listed viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
 For United Drilling Tools Ltd.
 Sd/-
 P.K. Ojha
 Date: 04.11.2020 Company Secretary

TUNI TEXTILE MILLS LIMITED
 CIN : L7120MH1987PLC043996
 Regd. Office : 63/71, Dadiseth Agriy Lane, 3rd Floor, Kalbadevi Road, Mumbai-400 002
NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI LODR Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th day of November 2020 to consider, approve and to take on record, inter-alia, the Un-audited Financial Results for 2nd quarter ended on 30th September 2020.
 This information is also available on the website of the Company www.tunitextiles.com and on the website of BSE where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com.
 By Order of the Board
 For Tunl Textile Mills Limited
 Mamta Jain
 Place : Mumbai
 Date: November 2, 2020
 Company Secretary

DHANVARSHA FINVEST LIMITED
 CIN: L24231MH1994PLC334457
 Registered Office: 2nd Floor, Bldg. No. 4, DJ House, Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400 069
 Phone: 022-6845 7200 | Email: contact@dfid.in | Website: www.dfid.in
NOTICE OF BOARD MEETING
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020, through video conferencing inter-alia to consider and take on record the unaudited financial results (subject to limited review by the Auditors) for the quarter and half year ended September 30, 2020.
 The Company has intimated BSE Limited its letter dated September 28, 2020, that the Trading Window for dealing in securities of the Company shall remain closed Monday, September 28, 2020 up to two Trading Days after the date of declaration of the unaudited financial results for quarter and period ended September 30, 2020.
 By the Order of the Board of Directors
 DHANVARSHA FINVEST LIMITED
 Sd/-
 Fredrick Pinto
 Place: Mumbai
 Date: November 05, 2020
 Company Secretary

ANKIT METAL & POWER LIMITED
 Regd. Office: 35, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012
 Phone No. : +91-33-2211 0225; E-mail: cs@ankitmetal.com
 Corporate Office: SKP House, 132A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026
 Phone No. : +91-33-4016 8000/8100; Fax: +91-33-40168107
 CIN : L27101WB2002PLC094979; Website : www.ankitmetal.com
NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020, at Kolkata, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.
 The information is also available on the website of the Company at www.ankitmetal.com and on the website of the Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.
 For Ankit Metal & Power Limited
 Sd/-
 Vineeta Barnecha
 Date: 4th November, 2020 (Company Secretary)

IMPEX FERRO TECH LTD.
 Regd. Office: 35, C, R Avenue, 4th Floor, Kolkata-700012
 Phone No. +91-33-22110225
 Corporate Office: 'SKP HOUSE', 132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata-700026
 Phone No. +91-33-40168000/8100
 Fax: +91-33-40168107
 Website: www.impexfertech.com, Email: cs@impexfertech.com
 CIN: L27101WB1985PLC001196
NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020 at Kolkata, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 30th September, 2020.
 The information is also available on the website of the Company at www.impexfertech.com and on the website of the Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.
 For Impex Ferro Tech Limited
 Sd/-
 Richa Lath
 Place: Kolkata
 Date: 04.11.2020 (Company Secretary)

TIL LIMITED
 [CIN: L74999WB1974PLC041725]
 Regd. Office : 1, Taratolla Road, Garden Reach, Kolkata-700 024
 Tel : (033) 6633 2000/2845; Fax : (033) 2469 3731/2143
 Website : www.tilindia.in
NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of TIL Limited ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, 12th November, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and six months period ended on 30th September, 2020, of the financial year 2020-21, subject to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company.
 In terms of the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons, the trading window, which was closed on 1st October, 2020, shall remain closed till Saturday, 14th November, 2020 for the aforesaid purpose.
 The said Notice is also available on the Company's website www.tilindia.in and also on the websites of the Stock Exchanges viz., BSE Limited - www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com.
 By Order of the Board
 Sekhar Bhattacharjee
 Place : Kolkata
 Date : 4th November, 2020
 Company Secretary

RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED
 CIN: L74900DL1992PLC047955
 Regd. Office: B-97, All Heavens Building, Wazirpur Ring Road, New Delhi - 110052
 Phone: +91-11-27372194/97
 E-mail: info@rcind.com
 Website: www.rcind.com
NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time), the meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020, to consider and approve the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.
 This information is also available on the website of the Company at https://www.rcind.com/ as well as on the website of BSE http://www.bseindia.com/.
 Further pursuant to the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons ('Code of Conduct') framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time, the 'Trading Window' for dealing in shares of the Company, had already been closed from Thursday, 1st October, 2020 pursuant to our information dated 30th September, 2020 and shall continue to remain closed till the end of 48 hours after the announcement/declaration of Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020 to the.
 For RCI Industries and Technologies Limited
 Sd/-
 JYOTI SHARMA
 Place: New Delhi COMPANY SECRETARY
 Date: 04.11.2020 M. No. A55135

TRIVENI GLASS LTD.
 1, Kanpur Road, Allahabad-211001 CIN: L26101UP1971PLC003491
 Website: www.triveniglassltd.com
 Email: akd@triveniglassltd.com; Tel: 0532-2407325
NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
 NOTICE is hereby given that the Forty Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, November 27, 2020 at 12:00 p.m. through video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2019-20 on or before November 4, 2020 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred as MCA circulars) and SEBI circular dated May 12, 2020. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the company's website www.triveniglassltd.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Friday November 20, 2020, (cut off date). The remote e-voting period commences on Tuesday, November 24, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, November 26, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
 The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
 Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.
 If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting:
 Physical Holding Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, C B Management Services (P) Limited at rta@cbmsl.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
 Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.
 For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance in connection with facility for voting by electronic means please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Tradeworld, A Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 E-mail: evoting@nsdl.co.in, Tel No. 022-24994545.
 Place: Prayagraj
 Date: 05.11.2020
 Regd. Office: 1, Kanpur road, Prayagraj-211001
 For TRIVENI GLASS LIMITED
 Sd/-
 Asitha Mohan
 Company Secretary

IMAGICAA WORLD ENTERTAINMENT LIMITED
 (Formerly known as Adlabs Entertainment Limited)
 Registered Office: 30/31, Sangdewadi, Khopoli-Pali Road, Taluka Khalapur, District Raigad - 410 203, Maharashtra, India
 Corporate Office: 9th Floor, Lotus Business Park, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra, India
 CIN: L92490MH2010PLC199925, Tel: +91 22 4068 0000; Fax: +91 22 4068 0088
 Email: compliance@imagicaworld.com Website: www.imagicaworld.com
NOTICE
 Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that 29th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to consider and approve Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.
 The said notice is also available on the Company's website at www.imagicaworld.com and may also be accessed on websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.
 For Imagicaworld Entertainment Limited (formerly known as Adlabs Entertainment Limited)
 Sd/-
 Divyata Raval
 Place : Mumbai
 Dated : November 04, 2020
 Company Secretary

RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED
 CIN: L74900DL1992PLC047955
 Regd. Office: B-97, All Heavens Building, Wazirpur Ring Road, New Delhi - 110052
 Phone: +91-11-27372194/97
 E-mail: info@rcind.com
 Website: www.rcind.com
NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time), the meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020, to consider and approve the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.
 This information is also available on the website of the Company at https://www.rcind.com/ as well as on the website of BSE http://www.bseindia.com/.
 Further pursuant to the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons ('Code of Conduct') framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time, the 'Trading Window' for dealing in shares of the Company, had already been closed from Thursday, 1st October, 2020 pursuant to our information dated 30th September, 2020 and shall continue to remain closed till the end of 48 hours after the announcement/declaration of Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020 to the.
 For RCI Industries and Technologies Limited
 Sd/-
 JYOTI SHARMA
 Place: New Delhi COMPANY SECRETARY
 Date: 04.11.2020 M. No. A55135

TRIVENI GLASS LTD.
 1, Kanpur Road, Allahabad-211001 CIN: L26101UP1971PLC003491
 Website: www.triveniglassltd.com
 Email: akd@triveniglassltd.com; Tel: 0532-2407325
NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
 NOTICE is hereby given that the Forty Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, November 27, 2020 at 12:00 p.m. through video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2019-20 on or before November 4, 2020 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred as MCA circulars) and SEBI circular dated May 12, 2020. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the company's website www.triveniglassltd.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Friday November 20, 2020, (cut off date). The remote e-voting period commences on Tuesday, November 24, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, November 26, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
 The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
 Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.
 If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting:
 Physical Holding Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, C B Management Services (P) Limited at rta@cbmsl.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
 Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.
 For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance in connection with facility for voting by electronic means please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Tradeworld, A Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 E-mail: evoting@nsdl.co.in, Tel No. 022-24994545.
 Place: Prayagraj
 Date: 05.11.2020
 Regd. Office: 1, Kanpur road, Prayagraj-211001
 For TRIVENI GLASS LIMITED
 Sd/-
 Asitha Mohan
 Company Secretary

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
 (A Govt. of India Undertaking)
 (Under the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)
 G.T. Road, Kanpur-209217
 (An ISO 9001:2015 Company)
 Website: www.alimco.in
 ALIMCO Phone- 0512-2770172/2770130, 8009864200

दिनांक 02.11.2020
s.gov.in पर आमंत्रित की गई है। निविदा तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण है।

जिला	लागत (लाख)
रिवी	1412.82
रिवी	28274.81

मुख्य अभियन्ता (प्रोक्योरमेंट)

विभाग खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

दिनांक-29.10.2020
eephedsin@gmail.com
पर
अंतिम तिथि 13.11.2020 सायं 5.
समय 15.30 बजे दोपहर है। निविदा
जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण
सकती है।

Retrofitted 09 Nos Piped Water
Block Waidhan, Dist.Singrauli
versible Motor Pump, cost of all
Commissioning and thereafter

e-EMD in Rs.	Cost of Tender in Rs.	No. of Calls
172950.00	12500.00	1 st
187400.00	12500.00	1 st
189410.00	12500.00	1 st
177010.00	12500.00	1 st
180190.00	12500.00	1 st
188670.00	12500.00	1 st
179430.00	12500.00	1 st
158760.00	12500.00	1 st
152830.00	12500.00	1 st

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सिंगरौली (म.प्र.)

ओवरलोड टूके
चलती है, जिससे
आए दिन दुर्घटना
होती रहती है,
ओवरलोड टूकों
के आवागमन को
रोकने के लिए
किसानों ने
एसडीएम मेजा
को ज्ञापन सौंपा।
पुलिस न दफ्तर से उन्हें गिरफ्तार किया
तो सनसनी मच गयी पुलिस की कार्रवाई
से दर्जनों कर्मियों का गुस्सा उबाल पर
आ गया कर्मियों ने आनन-फानन आम
सभा बुलाकर दफ्तर में ताला जड़ दिया।
मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए
पुलिस विरोधी नारे लगाये ईओ प्रदीप
मिश्रा ने ताजा हालात से आला
अफसरों को अवगत कराया। थोड़ी
देर में एसडीएम सोराव अनिल चतुर्वेदी
लाव लश्कर के साथ धरना स्थल पर

शिकायत बुधवार को गंगा प्रदूषण मुख्य
अभियंता जलनिगम से की है। पार्षद
रिंकी यादव द्वारा की गई शिकायत पत्र
में आरोप लगाया है कि फाफामऊ वार्ड
में अमृत योजना के अंतर्गत सीवर का
निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सीवर
को निर्माण में बाधली बरती जा रही है
जिसके चलते निर्माण कार्य में घटिया
मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है जिससे
बनने के कुछ दिन बाद ही सीवर टूटकर
सड़क में घस जा रहा है।

क यागदान का मुला नही सकता। ब्रह्मजल
सभा के मौके पर उपस्थित सोमदत्त सिंह
पटेल पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि कोरांव ने
सभा को संबोधित करते हुए पूर्व चेयरमैन
के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर
पर युसुफ अली सभासद मकखन केसरी
सभासद राजेश पांडे एडवोकेट गजेंद्र प्रताप
सिंह राघवेंद्र सिंह प्रधान राकेश सिंह सहादत
अली मेहताव खान सपा नेता मनोज सोनी
राजकुमार केसरी अनूप केसरी नौशाद
अंसारी दिनेश पटेल हरिशंकर मिश्रा पूर्व
प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे।

Triveni Glass Ltd.

1, Kanpur Road, Allahabad-211001 CIN: L26101UP1971PLC003491
Website: www.triveniglassltd.com

Email: akd@triveniglassltd.com; Tel: 0532-2407325

NOTICE OF 49th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Forty Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, November 27, 2020 at 12:00 p.m. through video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2019-20 on or before November 4, 2020 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred as MCA circulars) and SEBI circular dated May 12, 2020. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the company's website www.triveniglassltd.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Friday November 20, 2020. (cut off date)

The remote e-voting period commences on Tuesday, November 24, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, November 26, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login id details for e-voting:

Physical Holding	Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, C B Management Services (P) Limited at rta@cbmsl.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP

For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance in connection with facility for voting by electronic means please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Tradeworld, A Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 E-mail: evoting@nsdl.co.in Tel No. 022-24994545

Place: Prayagraj
Date: 05.11.2020
Regd. Office: 1, Kanpur road, Prayagraj-211001

FOR TRIVENI GLASS LIMITED
Astha Mohan
Company Secretary

इविवि के कर्मचारियों ने दी चेतावनी

मिनिस्टीरियल एंड टेक्निकल स्टाफ यूनियन की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी मांगों के समर्थन में कुलपति कार्यालय का घेराव किया। इस पर कार्यवाहक कुलपति प्रो. आरआर तिवारी ने उन्हें आश्वासन दिया है। कर्मचारियों ने लंबित प्रकरणों पर कोर्ट कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही चेतावनी दी है कि वह अब विवि प्रशासन से आरपार की लड़ाई लड़ेंगे। अंत में कर्मचारियों ने सीनेट हाल की परिक्रमा लगाई। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र ओझा, महामंत्री चंद्र प्रकाश यादव बेनी प्रसाद मिश्रा, विनय प्रकाश सिंह, सुरेश यादव, संजय तिवारी, कानन दास गुप्ता, अशर्फी लाल, छोटे लाल मौर्य, शहजादे, तौफिक आदि मौजूद रहे।

ज्ञान मण्डल लिमिटेडके लिए
जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा
ज्ञानमण्डल यंत्रालय, ३ लीडर
रोड, प्रयागराजसे मुद्रित तथा
लीडर बिल्डिंग, ३ लीडर रोड,
प्रयागराज से प्रकाशित।
सम्पादक: शार्दूल विक्रम गुप्त

स्थानीय सम्पादक-जितेन्द्र सिंह

वाराणसी : सन्त कबीर मार्ग
गोरखपुर : बैंक रोड
कानपुर : बांसमण्डी
लखनऊ : १, जापलिंग रोड
आगरा : महात्मा गांधी रोड
बरेली : रोड नं. ३, परसाखेड़ा
पटना : फ्रेजर रोड
रांची : नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया
जमशेदपुर: कालीमाटी रोड
धनबाद : कतरास रोड

वर्ष-१३ पू.सं. (१२०८)
रजिस्ट्रेशन संख्या-५९७४१/९५

दूरभाष: २६१५०८०, २६१६१५४

E-mail: ajalld@yahoo.com
ajalld@rediffmail.com
allidaj@yahoo.com

पी.आर.बी. अधिनियमके अन्तर्गत समाचारके
चयनके लिए जितेन्द्र सिंह जिम्मेदार होंगे
तथा समस्त विवाद जनपद न्यायालय,
प्रयागराजके अधीन होगा।

कार्य

क्षुब्ध

प्रशिक्षित स्नातक
चयनित अभ्यर्थियों
संस्थाओं में कार्य
रहा है। उनका समा
क्षुब्ध अभ्यर्थी चय
लेकिन उनकी कोई
करीब चार माह से
शोषण के शिकार
भटक रहे हैं। ऐसे
देने लगा है। अनशन
में बोर्ड के अध्यक्ष/र
भी सौंपा है। ज्ञापन
सहायता प्राप्त माध्या
पीजीटी २०१६ भर्ती



चयन बोर्ड पर धरना